Prabhat Ranjan Singh

(Amount in Lakhs)

### OSBI

Networking & Communication Dept., State Bank Global IT Centre, Main Building, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614.

#### CORRIGENDUM - III

Please refer to RFP No. SBI/GITC/NW&C/21-22/768 dated 28.05.2021 for procurement of Routers and Switches for Branches/Offices. Corrigendum dated 28.06.2021 can be accessed under Procurement news at Bank's website https://www.sbi.co.inorhttps://bank.sbi

Place: Navi Mumbai

Date: 30.06.2021

Sd/- Deputy General Manager (Networking & Communication Dept.)

The Federal Bank Ltd. THE FEDERAL BANK LID. Nirman Vihar Branch, E-372 Nirman YOUR PERFECT BANKING PARTNER Regd. Office: Alwaye, Kerala Vihar, New Delhi - 110092

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue

for redemption and which have not been regularized so far in spite of repeated notices, will be put

Venue         A/c Number         Name         A/c Number         Name           Federal Bank         14516200005014 Sarthak Kumar Singh         14516100011062 Madhu Tripathi         14516100021079 Pravin Kumar Tiwa           Ltd.         Nirman Vihar         14516100020402 Prateek Wadhawani         14516100021087 Naushida Praveen           14516200005188 Prateek Wadhawani         14516100021152 Shreekant
Ltd. 14516100020352 Ram Babu Garg 14516100021079 Pravin Kumar Tiwa 14516100020402 Prateek Wadhawani 14516100021087 Naushida Praveen 14516200005188 Prateek Wadhawani 14516100021152 Shreekant
Branch, E-372

Branch Manager, The Federal Bank Ltd. Place : Delhi, Date : 19.06.2021

14516100020865 Krishan Pratap Rana 14516100021749 Madhu Luthra

14516100020964 Laxmi Kumar Bharti 14516100021863 Mukesh Mavi

14516100021012 Anil Kumar Nair

14516100021855 Ajay Sharma

#### NOTICE FORM NO.INC-25A

14516100020881 Saloni Pathak

14516100020998 Prince Sharma

14516100021038 Deepak Kumar

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of Public company into a Private company Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

Northern Region

In the matter of M/S AXON HEALTH CARE LIMITED having its registered office at HEERA COLONY, HOSHIARPUR - 146001 Applicant

Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Monday, 14th June, 2021 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, B-2 WING, 2nd FLOOR, PT DEENDAYAL ANTYODAYA BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below. For and on behalf of the Applicant

Anuj Sood Date: 30/06/2021 Director

DIN: 00119920

Reserve | EMD Amount| Bid

### **Axon Health Care Limited**

Place: Hoshiarpur

Heera Colony, Hoshiarpur - 146001 Punjab, CIN: U85110PB2000PLC023644

SHRI NARSING DEV SUGAR PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (The Company)

Reg. Off.: Village Saidpur, Post Dutt Nagar, Baghpat-250626, Uttar Pradesh, India Place where Books of Account & papers are Maintained: 35B/6, Madhokunj, Rammohan Plaza, Allahabad, 211002, Uttar Pradesh, India Liquidator: Babita Jain (Ms)

Liquidator Address: 35B/6, Madhokunj, Rammohan Plaza, Allahabad211002, UP, India Email: irp.shrinarsing@gmail.com

Sale of Assets of the Company under Regulation 32(b) & 32(d) of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016 Date and Time of Auction: 14<sup>th</sup> July, 2021 from 2:00 p.m. to 03:00 p.m. (With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of assets of the Company namely ShriNarsing Dev Sugar Private Limited(in Liquidation in possession of the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal Allahabad Bench at Allahabad vide order dated 23.01.2020. The sale of Company will be done by the undersigned through the e-auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net.

No	Description	Manner of Sale	Price (INR)	& Documents submission deadline INR	Incremental value
1	Entire Plant and Machinery and Land and Building with all assets as per Assets Memorandum excluding Vehicle Assets in Lumpsum pursuant to Regulation 32(b)/32(f) of the IBBI Liquidation Regulations, 2016	Lumpsum pursuant to Regulation 32(b) of the IBBI	7,00,00,000/- INR Seven Crores Only	50,00,000/- INR Fifty Lacs only	100,000/- INR One Lac only
2	Entire Plant and Machinery with all assets as per Assets Memorandum excluding Vehicle Assets in Lumpsum pursuant to Regulation 32(b) of the IBBI Liquidation Regulations, 2016	pursuant to Regulation 32(d) of the IBBI	6,05,00,000/- INR Six Crores Five Lacs only	35,00,000/- INR Thirty Five Lacs only	100,000/- INR One Lac only
3	Land Bearing Khasra No 279, 352A, 352B, 348, 354 Dutt Nagar Augti Link Road, Village Said Pur urf Nathmalpur Distt Baghpat (UP) - 1.1525 Hectare/ 11525.00 Sq. metre/ 13783.90 Sq Yards Free Hold Land and a	pursuant to Regulation 32(d) of the IBBI Liquidation Regulations,	2,16,00,000/- INR Two Crores Sixteen Lacs only	20,00,000/- INR Twenty Lacs only	100,000/- INR One Lac only

#### Industrial Building thereon. Terms and Condition of the E-auction are as under

1. First Preference will be given to Offers of Lumpsum sale as mentioned in S No 01 of the above said Table, and in case of success, other two will became infructuous.

2. Please note that in the Second case and Third case, Offer for Third case will be entertained only when offer of Second case for Plant Machinery arrived, otherwise became infructuous. 3.E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS". "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider M/S e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger)

The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e- auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://ncltauction.auctiontiger.net. Contact: Mr. Praveen Kumar Thevar 9722778828 - 07968136854/55/51 079-68136800E-mail: praveen.thevar@auctiontiger.net

Date:30.06.2021 Place: Allahabad

Name: Babita Jain **Designation: Liquidator** IBBI Regn No: IBBI/IPA-002/IP-N00321/2017-18/10926

Sale Notice under Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 BALDEO METALS PRIVATE LIMITED (In Liquidation) Regd Office: M-15 New Mandoli industrial Area Saboli Shahdara Delhi-110045

Notice is hereby given to the public in general for sale of Plant & Machinery of Baldeo Metals Private Limited (In Liquidation) ("Company") on Standalone Basis, by e-auction process, offered by the liquidator (appointed by the Hon'ble NCLT Bench-V, New Delhi vide order

dated 2nd March, 2021). The Plant & Machinery of the Company is being proposed to be sold on Standalone Basis as per Regulation 32(a) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations. 2016 on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" and as such, the said proposition for disposition is without

any kind of warrantees and indemnities. The sale of the Plant & Machinery of the company on Standalone basis will be through the E-Auction platform: https://www.eauctions.co.in

unlimited extension of 5 minutes each) as per details mentioned in the table below-S No Description Reserve Price

1	Plant & Machinery of the Corporate Debtor on Standalone Basis	1080
Site	ction: Date: 15/07/2021; Timings: 10:00 am to 3:00 pm Visit & Inspection: 01/07/2021 to 14/07/2021 (10:00 am to 5:00 h prior permission on email)	pm)
_	exerted configurate many refer to the nemolete F AUCTION PROCES	CUNIFOR

- Interested applicants may refer to the complete E-AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT containing details of terms and conditions of online E-Auction, E-Auction Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, Earnest Money Deposit ("EMD") requirement etc. available on https://www.eauctions.co.in The Liquidator has a right to accept or cancel or extend or modify etc. any terms and
- conditions of E-Auction at any time. He has a right to reject any of the bids without giving . EMD- 10% of the reserve price is to be deposited along with the documents submission deadline is 14.07.2021 and E-Auction will be conducted from 10:00 am till 3:00 pm IST

\*Note:- Applicable Taxes Extra Date: 30.06.2021

Liquidator Regn No.: IBBI/IPA-002/IP-N00428/2017-2018/11239 Place: New Delhi Registered Email: prabhat.rs.advocate@gmail.com Email ID for Correspondence:-baldeometals.liquidator@gmail.com Contact :+91-9013060518

Onesource Fileus Venture Ltd CIN - L74900TN1994PLC097983 Regd. Office: JJ Manor, 146, Rukmani Lakshmipathy Road, lind Floor, Egmore, Chennai - 600008

Email: cs@osivl.com Web: www.osivl.com Tel: 044-42134343; Fax: 044-42134333 STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

Ť e	Quarte	r Ended	Year E	Ended			
Particulars	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020			
00400000000000000000000000000000000000	Audited	Audited	Audited	Audited			
Total Income from Operations (Net)	9.15	(16.58)	39.27	1.91			
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	2.75	(24.07)	15.20	(195.28)			
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2.75	(24.07)	15.20	(195.28)			
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.53	(24.77)	12.98	(195.98)			
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.53	(24.77)	12.98	(195.98)			
Equity Share Capital	307.50	307.50	307.50	307.50			
Reserves (Excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of Previous Year)	83		(35.57)	(48.55)			
Earning Per Share (before Extraordinary Items) of Rs 10/- each Basic Diluted	0.02	(0.81) (0.81)	0.42 0.42	(6.37) (6.37)			
Earning Per Share (After Extraordinary Items) of Rs 10/- each Basic Diluted	0.02 0.02	(0.81) (0.81)	0.42 0.42	(6.37) (6.37)			

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for Quarter & Year Ended March 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under the regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations 2015. The full format of the Quarterly and Audited Financial Results for Quarter & Year Ended March 31, 2021 is available on the Stock Exchange Website: www.bseindia.com and the Company Website :www.osivl.com.

For Onesource Ideas Venture Limited

Fathima Jalal Place: Chennai Managing Director Date: 28/06/2021 DIN: 00479516

E Auction Sale Notice under IBC, 2016. Sale Notice under IBC, 2016 of M/s Incom Wires & Cables Limited (In Liquidation)

CIN: U74899DL1992PLC050243 Regd. Off: C-46, Mayapuri Industrial Area, Phase- II, New Delhi-110064. Liquidator's Office: 1670/120, Shanti Nagar, Tri-Nagar, Delhi – 110035 Sale of assets of M/s Incom Wires & Cables Limited (In Liquidation) by the liquidator

appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net

Description	Date and Time of E- Auction	Reserve Price (INR)	EMD (Amount)	Bid Incrementa Value
Sale of Incom Wires & Cables Limited (In liquidation) as a Going concern along with all tangible & intangible assets only.	16.07.2021 3.00 to 5.00 PM (with unlimited extension of 5 minutes each)	Rs. 2,54,00,000/- Rs. Two Crore Fifty-Four Lacs only		
Lot-1 (Building only, Constructed on Plot AS-4 to AS-6 at Sikandrabad Industrial Area, Bulundshar, U.P and Financial Assets not readily realizable)	3.00 to 5.00 PM (with unlimited	Rs. 1,76,78,000/- Rs. One Crore Seventy-Six Lacs Seventy- Eight Thousand only	Rs. Seventeen Lacs Sixty-Seven Thousand &	Rs. 1,00,000
Lot-2 (Plant & Machinery lying at factory premises at Sikandrabad Industrial Area, Bulundshar, U.P)		Rs. 77,22,000/- Rs. Seventy- Seven Lacs Twenty-Two Thousand only	Rs. 7,72,000/- Rs. Seven Lacs Seventy-Two Thousand only	Rs. 75,000

Date of Inspection: 12.07.2021 till 5.00 P.M with prior intimation to the Liquidator. EOI Submission last date: 12.07.2021 till 5.00 P.M.

ferms & Conditions of the proposed auction are as under:

- E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER IS BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities through approved service provider M/s E-Procurement Technologies Ltd. (https://ncltauction.auctiontiger.net)
- Bids shall be submitted online to Liquidator in the prescribed format. The bid form along with detailed terms & conditions of complete E-auction process can be downloaded from the website of https://ncltauction.auctiontiger.net. Contact: Mr. Praveen at+91-9722778828, E-mail:praveen.thevar@auctiontiger.net.nclt@auctiontiger.net/
- The details of the assets identified to be transferred along with the company are also provided in the above E-Auction Process Document, Preference shall be given to the bidder for item no-1 over bidder for item-2 & 3. The Liquidator has absolute right to accept or reject any or all bids or
- adjourn/postpone/cancel the E-Auction or withdraw any property or portion thereof from the E-Auction at any stage without assigning any reason thereof.

The Sale shall be subject to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and Regulations made thereunder.

Rakesh Kumar Jain (Liquidator)
Regn No.: IBBI/ IPA-001/IP-P01297/2018-19/12068 Date: 30.06.2021 Place: New Delhi Email: rakeshjainca@rediffmail.com

### TINNA TRADE LIMITED Registered Office: No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030

Website:www.tinnatrade.in, E-mail:investor.ttl@tinna.in, Telephone No.:011-49518530 Fax no.:011-26804883 CIN:L51100DL2009PLC186397

EXTRACT OF THE AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

S.			STAND	CONSOL	CONSOLIDATED		
No.	PARTICULARS	Quarte	Quarter Ended Year Ended		Year E	Year Ended 31-Mar-21 31-Mar-20 Audited Audited	
		31-Mar-21	31-Mar-20	31-Mar-21	31-Mar-20	Year Ended  0 31-Mar-21 31-Mar-20 d Audited Audited 5 24,491.12 29,467.23 3) (164.78) (426.99) 3) (138.53) (330.72) 1) (145.12) (263.35) 8 856.48 856.48	
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	5,073.72	4,356.25	24,075.50	29,101.55	24,491.12	29,467.23
2	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(140.59)	(261.88)	(307.77)	(466.03)	(164.78)	(426.99)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(140.59)	(261.88)	(307.77)	(466.03)	(164.78)	(426.99)
4	Net profit/(loss) for the period after Tax(After Exceptional and(or Extra ordinary Items)	(156.34)	(194.66)	(281.52)	(369.76)	(138.53)	(330.72)
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	(159.79)	(194.09)	(285.97)	(374.11)	(145.12)	(263.35)
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48
7	Other Equity	1		1,820.07	2,106.04	1,820.07	1,951.65
8	Earning Per Share(face value of Rs 10/- each share) (for continuing and discontinued						

(b)Diluted Note:

operation)

(a)Basic

Place: New Delhi

Date: 28th June, 2021 financialexp.epapr.in

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com and on the company's website www.tinnatrade.in

(1.83)

(1.83)

(2.28)

(2.28)

(3.29)

(3.29)



### UNİSTAR **Universal Cables Limited**

Regd. Office: P. O. Birla Vikas, Satna - 485 005 (M.P.) Phone: (07672) 257121 to 257127, 414000 - Fax: (07672) 416228 E-mail: headoffice@unistar.co.in - Website : www.unistar.co.in CIN-L31300MP1945PLC001114

AN IS/ISO 9001, 14001 & 45001 COMPANY

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2021

			Quarter Ended		Year	Ended
SI. No.	Particulars	31.03.2021 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from Operations	42152.89	37037.76	37180.41	128066.56	156895.69
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	4472.49	2725.88	4152.70	8956.96	14679.08
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	4472.49	2725.88	4152.70	8956.96	14679.08
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	3344.84	1999.73	(47.93)	6722.64	9007.54
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6970.40	3330.64	(4628.52)	15241.77	(27.68)
6	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- per share)	3469.83	3469.83	3469.83	3469.83	3469.83
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		-		105836.71	90603.76
8	Basic & Diluted Earnings per share (Face Value of ₹ 10/- each) (not annualised)	9.65	5.76	(0.14)	19.38	25.96

Key Audited Standalone Financial Information of the Company is as under:-

		Quarter Ended			Year	ar Ended	
SI. No.	Particulars	31.03.2021 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	
1	Total Income from Operations	42152.89	37037.76	37180.41	128066.56	156895.69	
2	Net Profit for the period before Tax	1034.98	1144.87	1368.05	1511.75	8109.54	
3	Net Profit for the period after Tax	782.21	850.78	1184.52	1216.55	6455.10	
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2544.89	1219.88	295.85	4941.42	2787.15	

Note: (i) The Board of Directors has recommended a dividend at the rate of ₹ 1/- per Equity Share of face value of ₹ 10/- each for the year ended 31" March, 2021. The payment of dividend is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting of the Company.

(ii) The above is an extract of the detailed format of audited Consolidated and Standalone Financial Results for the guarter and year ended 31" March, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above quarterly and 🕏 yearly results are available on the stock exchange websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website: www.unistar.co.in.

for Universal Cables Limited

(₹ in lakhs)

Place: Kolkata Date: 29.06.2021 (Harsh V. Lodha) Chairman

DIN: 00394094

(Rs. in Lacs)

### NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LIMITED

Regd. Office: Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi – 110 091 Tel: 0120-2516495 Fax: 0120-2516440

CIN Number: L45101DL1996PLC315772 Website: www.ntbcl.com Email: ntbcl@ntbcl.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

20	Local Local		STANDALONE CONSOLIDA						ONSOLIDAT	ED		
SI. No.	Particulars	(	Quarter ended Year ended Year ended			uarter ende	Year ended Year ended					
NO.		31.03.2021 Audited	31.12.2020 Unaudited	31.03.2020 Audited	31.03.2021 Audited	31.03.2020 Audited	31.03.2021 Audited	31.12.2020 Unaudited	31.03.2020 Audited	31.03.2021 Audited	31.03.2020 Audited	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12	
1	Total Income from Operations	647.73	388.11	912.12	1,358.74	2,936.88	649.24	389.69	920.27	1,362.01	2,954.2	
11	Profit/ (Loss) from operations before tax	(793.13)	(986.40)	(514.47)	(4,045.60)	(3,105.09)	(780.13)	(973.11)	(494.85)	(3,995.49)	(3,036.91	
Ш	Net Profit/ (Loss) from continuing operations	(793.13)	(986.40)	(514.47)	(4,045.60)	(3,105.09)	(780.13)	(973.11)	(494.85)	(3,995.49)	(3,036.91	
IV	Total Other comprehensive Income	(1.54)	0.42	1.28	(0.28)	1.43	(0.89)	0.01	1.80	(88.0)	0.3	
٧	Total Comprehensive Income for the period	(794.67)	(985.98)	(513.19)	(4,045.88)	(3,103.66)	(781.02)	(973.10)	(493.05)	(3,996.37)	(3,036.56	
VI	Paid-up equity share capital (Face Value Rs 10)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.5	
7000000	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	N/A	N/A	N/A	12,677.95	16,723.83	N/A	N/A	N/A	12,649.45	16,617.8	
VIII	Earning Per Share											
UNIS/6	Basic	(0.43)	(0.53)	(0.28)	(2.17)	(1.67)	(0.42)	(0.52)	(0.27)	(2.15)	(1.63	
	Diluted	(0.43)	(0.53)	(0.28)	(2.17)	(1.67)	(0.42)	(0.52)	(0.27)	(2.15)	(1.63	

Notes to Financial Results

The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on June 29, 2021. Hon'ble High Court of Allahabad had, vide its Judgement dated October 26, 2016 on a Public Interest Litigation filed in 2012 (challenging the validity of the Concession Agreement and seeking the Concession Agreement to be guashed) has directed the Company to stop collecting the user fee holding the two specific provisions relating to levy

and collection of fee to be inoperative but refused to quash the Concession Agreement. Consequently, collection of user fee from the users of the NOIDA bridge has been suspended from October 26, 2016 and an appeal has been filed before Hon'ble Supreme Court of India seeking an interim stay on the said Judgment On November 11, 2016, Hon'ble Supreme Court issued its Interim Order denying the interim stay and, sought assistance of CAG to verify whether the Total Cost of the Project in terms of the Concession Agreement has been recovered or not by the Company. CAG has submitted its report to Hon'ble Supreme Court and the bench has directed on September 14, 2018 that the report submitted by CAG be kept in sealed cover

The Special Leave Petition (SLP) is still pending for final adjudication in the Hon'ble Supreme Court. The Company has also notified NOIDA that the Judgement of the Hon'ble Allahabad High Court, read with the Interim Order of the Hon'ble Supreme Court of India constitute a 'change in law' under the Concession Agreement and submitted a detailed proposal for modification of the Concession Agreement, so as to place the Company in substantially the same legal, commercial and economic position as it was prior to the said change in law. Since NOIDA did not act on the proposal, the Company had sent a notice of arbitration to NOIDA.

The Arbitral Tribunal has been constituted and both the Company and NOIDA have submitted their claims and counter claims. Further, NOIDA had filed an application under Section 16 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961 on the maintainability of the arbitration proceedings which was rejected by the Arbitral Tribunal vide order dated August 10, 2018. NOIDA had filed an application in the Delhi High Court, under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, challenging the Arbitral Tribunal Order dated August 10, 2018, which has been disposed off by the Delhi High Court on January 31,2019, without any relief to NOIDA.

NOIDA has also filed an application for directions before the Hon'ble Supreme Court seeking a stay on arbitral proceedings. On April 12, 2019 the Hon'ble Supreme Court On January 31, 2020, the Company filed an application for vacation of interim stay granted vide Order dated April 12, 2019. In view of outbreak of COVID-19, the functioning of

the Supreme Court was limited to urgent matters only. Pursuant to the filling of letter of urgency the matter was heard by Hon'ble Supreme Court on September 21, 2020, October 05, 2020, November 18, 2020, January 20, 2021, March 16, 2021 and April 15, 2021. However the matter was not taken up for effective hearing. The next date of hearing has presently not been notified by the Hon'ble Supreme Court. Based on a legal opinion and the Board of Directors' reliance on the provisions of the Concession Agreement (relating to compensation and other recourses), the Company is

confident that the underlying value of the intangible and other assets are not impaired.

The Company continues to fulfil its obligations as per the Concession Agreement, including maintenance of Project Assets.

The Company has received the assessment order from Income Tax Department on December 27, 2019 u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961, for the Assessment Year 2016-17 and 2017, wherein a demand amounting to Rs.357 crores and Rs 383.48 crores respectively has been raised, based on the historical dispute with the Tax Department, which is primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future, valuation of land and other recoveries. The Company has filed an appeal with the first level Appellate Authority. With transition to Faceless Appeals, as introduced vide Faceless Appeal Scheme, 2020, both the appeals have been transferred to the National Faceless Appeal Center (NFAC). A notice was received from the NFAC fixing the date of compliance for January 13, 2021, however the matter was adjourned and no further notice has been issued thereafter

Further, on May 15, 2021 the Company has received a Show Cause Notice u/s 270A from National Faceless Assessment Centre for the AY 2016-17 and AY 2017-18 and the Company has requested to keep the penalty proceedings in abeyance as the appeals on merits are currently pending before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The Income Tax Department has, in earlier years, raised a demand of Rs.1,340.03 Crores which was primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future from toll and revenue subsidy on account of allotment of land. Pursuant upon the receipt of order from CIT(A) on April 25, 2018, the Company has received the notice of demand dated March 31, 2018 from the Assessing Officer (AO), Income Tax Department, New Delhi in respect of AYs 2006-07 to 2014-15 giving effect to the order from CIT (A), whereby an additional tax demand of Rs. 10.893.30 Crores was raised. The enhancement of the demand was primarily on account of valuation of land. The Company has

filled an appeal along with the stay application with Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by ITAT on December 19, 2018, January 2, 2019 and February 6 2019 and based on NCLAT order dated October 15, 2018, ITAT adjourned the matter sine die with directions to maintain status quo. In November 2018, the CIT (A), Noida passed a penalty order for AY 2006-07 to 2014-15, based on which the Assessing Officer Delhi imposed a penalty amounting to Rs.10,893.30 Crores in December 2018. The Company has filed an appeal along with a stay application with the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by the ITAT on March 29, 2019 and May 03, 2019. ITAT has adjourned the matter sine die, with directions to maintain status quo.

In terms of an affidavit filed by the Ministry of Corporate Affairs with the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) on May 21, 2019, the cut-off date of October 15, 2018 ("Cut-off date") was proposed. The Hon'ble NCLAT vide its Order dated March 12, 2020, has approved the revised Resolution Framework submitted by the New Board

along with its amendments. In the said Order, Hon'ble NCLAT has also approved October 15, 2018 as the Cut Off date for initiation of resolution process for IL&FS and its group companies, including the Company, Accordingly, the Company has not accrued any interest on all its loans and borrowings with effect from October 15, 2018 ("Cut-off date"). Re-opening of the books of accounts, Investigations by Serious Fraud Investigation Office ("SFIO") and other regulatory agencies and forensic examination by Grant Thornton

India LLP, which is under process for certain group entities, however the same does not have any impact on the financial statements/operations of the Company. On September 28, 2018, a writ of demand was served by NOIDA on the Company, for an amount of Rs 3.69 crores, in relation to revenue from advertising on the NOIDA side of DND Flyway. The Company has requested NOIDA to keep the writ of demand in abeyance, since the matter has been referred to Arbitration by NOIDA and further no action can be taken against the Company due to the moratorium granted in view of the NCLAT order dated October 15, 2018.

During December 2018 and April 2019, the Company has received an additional demand of Rs. 2.34 crores and Rs 2.42 crores towards arrears of license fee. The Company has requested NOIDA to keep demand in abeyance since the matter has been referred to Arbitration by NOIDA.

After the novel coronavirus (COVID-19) outbreak was declared as a global pandemic by World Health Organization on March 11, 2020, the Government of India, followed by Government of NCT Delhi and Government of Uttar Pradesh, have, since March 16, 2020, been issuing various measures/directions/guidelines/orders to all commercial and industrial establishments and have imposed "lock-down" and curfews preventing inter-state and intra-state travel including requiring offices to be closed.

activities in a calibrated manner in areas outside containment zones, there has been an impact on the revenue from operations (space for advertisement and the rental income from letting of office space) during the year ended March 31, 2021, owing to the restrictions and consequential waivers to Licensee. As businesses were starting to open up the second wave of COVID-19 hit the country and has derailed all economic activities. Phase wise lockdowns have again been imposed which may impact the revenue from operations of the Company during financial year 2021-22 as well. The Company will however continue to closely monitor any changes to the future economic conditions that may

As a result of the complete nationwide lockdown initially imposed from March 25, 2020 for 21 days and extended twice till May 31, 2020 and the gradual re-opening of limited

The Company continues to exhibit resilience amid these uncertain times and the management believes that considering the Company's historical performance and liquidity, the Company will be able to mitigate the risks associated with COVID-19.

The Company has also written to all concerned authorities (SDMC/EDMC/NOIDA) for remission/deferment in license fees/revenue share like many other parties and the

concerned authorities were understood to be considering giving relief to licensees but a final response was awaited. The Company has only one business segment and therefore reporting of segment wise information is not applicable

The fligures for the guarter ended March 31, 2021 and March 31, 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year ending March 31,

For N. M. Raiji & Co.

Chartered Accountants

2021 and March 31, 2020 and the unaudited published year-to-date figures upto December 31, 2020 and December 31, 2019 respectively, being the date of the end of the third quarter of the respective financial years which were subjected to limited review. 10 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure

Requirement ) Regulation 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Company, National Stock Exchange of India Limited and

BSE Limited at www.ntbcl.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively. 11 Previous year/ period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary.

have impact on its business and financial position.

As per our separate report of even date attached

Place: Delhi

Date: June 29, 2021

For and on behalf of the Board of Directors Vinay D. Balse Director Partner Membership No.: 039434

(3.64)(4.32)(1.91)(4.32)(1.91)(3.64)

FOR TINNA TRADE LIMITED

Chairman & Managing Director

Gaurav Sekhri

(Rs. in lakhs)

Firm Registration No.: 108296W

New Delhi

### NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414

Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi – 110 015 **Ph. No.:** (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982,

Email Id.: investorcare@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com

**Branch Office**: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021 (Rs. In lakhs, except per share data)

$\vdash$			Stanc	lalone		Consolidated						
		Fau tha au				Fautha au						
Sr.	Particulars		arter ended	For the ye			arter ended	'				
No						31st March			31st March			
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020			
$\vdash$	Total income from operations	403.61	304.22	4,371.59	4,095.17	688.58	558.20	6,512.43	5,896.86			
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional											
	and/or Extraordinary items)	360.99	222.40	3,516.43	1,496.28	622.69	(707.84)	4,608.27	933.72			
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after	260.00	222.40	2 546 42	1 406 20	606.07	(711 11)	4 750 06	022.70			
L	Exceptional and/or Extraordinary items)	360.99	222.40	3,516.43	1,496.28	626.27	(711.14)	4,758.86	923.78			
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional		000.07		0.455.00		000.40		4 0 40 00			
	and/or Extraordinary items)	571.48	923.07	3,320.97	2,457.99	775.36	202.40	4,314.14	1,942.60			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising											
1	Profit/Loss) for the period (after tax) and Other											
1	Comprehensive Income (after tax)]	63,330.31	(7,031.02)	1,87,594.98	(40,973.78)	63,089.57	(9,175.83)	1,92,064.28	(43,365.18)			
6	Equity Share Capital	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62			
7	Other Equity			5,04,230.43	3,16,635.45			5,10,050.84	3,18,214.08			
8	Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and											
	discontinued operations) -											
	1. Basic:	11.13	17.97	64.66	47.86	15.10	3.94	84.00	37.82			
	2. Diluted:	11.13	17.97	64.66	47.86	15.10	3.94	84.00	37.82			
Not	es :-			- 10				. 95	-121			

- The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 29th June, 2021. The statutory auditors have expressed an unmodified opinion on these financial results.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/annual Financial Results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com)

For Nalwa Sons Investments Limited Rakesh Kumar Garg **Executive Director & C.E.O.** DIN: 00038580

**NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LIMITED** 

Regd. Office: Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi – 110 091 Tel: 0120-2516495 Fax: 0120-2516440 CIN Number: L45101DL1996PLC315772 Website: www.ntbcl.com Email: ntbcl@ntbcl.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(Rs. in Lacs)

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			STANDALO	NE			C	ONSOLIDAT	ED	
SI. No.	Particulars	The second district of	Quarter ende		Annual Science Conception Science	Year ended		Quarter ende	**		Year ended
140.		31.03.2021 Audited	31.12.2020 Unaudited	31.03.2020 Audited	31.03.2021 Audited	31.03.2020 Audited	31.03.2021 Audited	31.12.2020 Unaudited	31.03.2020 Audited	31.03.2021 Audited	31.03.2020 Audited
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Total Income from Operations	647.73	388.11	912.12	1,358.74	2,936.88	649.24	389.69	920.27	1,362.01	2,954.22
H	Profit/ (Loss) from operations before tax	(793.13)	(986.40)	(514.47)	(4,045.60)	(3,105.09)	(780.13)	(973.11)	(494.85)	(3,995.49)	(3,036.91)
H	Net Profit/ (Loss) from continuing operations	(793.13)	(986.40)	(514.47)	(4,045.60)	(3,105.09)	(780.13)	(973.11)	(494.85)	(3,995.49)	(3,036.91)
IV	Total Other comprehensive Income	(1.54)	0.42	1,28	(0.28)	1.43	(0.89)	0.01	1.80	(0.88)	0.35
٧	Total Comprehensive Income for the period	(794.67)	(985.98)	(513.19)	(4,045.88)	(3,103.66)	(781.02)	(973.10)	(493.05)	(3,996.37)	(3,036.56)
VI	Paid-up equity share capital (Face Value Rs 10)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
VII	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	N/A	N/A	N/A	12,677.95	16,723.83	N/A	N/A	N/A	12,649.45	16,617.85
VII	Earning Per Share										
	Basic	(0.43)	(0.53)	(0.28)	(2.17)	(1.67)	(0.42)	(0.52)	(0.27)	(2.15)	(1.63)
	Diluted	(0.43)	(0.53)	(0.28)	(2.17)	(1.67)	(0.42)	(0.52)	(0.27)	(2.15)	(1.63)

### Notes to Financial Results

Place : Hisar

Date: 29th June, 2021

- The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on June 29, 2021 2 Hon'ble High Court of Allahabad had, vide its Judgement dated October 26, 2016 on a Public Interest Litigation filed in 2012 (challenging the validity of the Concession
- Agreement and seeking the Concession Agreement to be quashed) has directed the Company to stop collecting the user fee holding the two specific provisions relating to levy and collection of fee to be inoperative but refused to quash the Concession Agreement. Consequently, collection of user fee from the users of the NOIDA bridge has been suspended from October 26, 2016 and an appeal has been filed before Hon'ble Supreme Court of India seeking an interim stay on the said Judgment On November 11, 2016, Hon'ble Supreme Court issued its Interim Order denying the interim stay and, sought assistance of CAG to verify whether the Total Cost of the Project in terms of the Concession Agreement has been recovered or not by the Company. CAG has submitted its report to Hon'ble Supreme Court and the bench has directed on

September 14, 2018 that the report submitted by CAG be kept in sealed cover The Special Leave Petition (SLP) is still pending for final adjudication in the Hon'ble Supreme Court. The Company has also notified NOIDA that the Judgement of the Hon'ble Allahabad High Court, read with the Interim Order of the Hon'ble Supreme Court of India constitute a 'change in law' under the Concession Agreement and submitted a detailed proposal for modification of the Concession Agreement, so as to place the Company in substantially the same legal, commercial and economic position as it was prior to the said change in law. Since NOIDA did not act on the proposal, the Company had sent a notice of arbitration to NOIDA.

The Arbitral Tribunal has been constituted and both the Company and NOIDA have submitted their claims and counter claims. Further, NOIDA had filed an application under Section 16 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961 on the maintainability of the arbitration proceedings which was rejected by the Arbitral Tribunal vide order dated August 10, 2018. NOIDA had filed an application in the Delhi High Court, under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, challenging the Arbitral Tribunal Order dated August 10, 2018, which has been disposed off by the Delhi High Court on January 31,2019, without any relief to NOIDA.

NOIDA has also filed an application for directions before the Hon'ble Supreme Court seeking a stay on arbitral proceedings. On April 12, 2019 the Hon'ble Supreme Court directed a stay on Arbitral proceedings.

On January 31, 2020, the Company filed an application for vacation of interim stay granted vide Order dated April 12, 2019. In view of outbreak of COVID-19, the functioning of the Supreme Court was limited to urgent matters only. Pursuant to the filling of letter of urgency the matter was heard by Hon'ble Supreme Court on September 21, 2020, October 05, 2020, November 18, 2020, January 20, 2021, March 16, 2021 and April 15, 2021. However the matter was not taken up for effective hearing. The next date of hearing has presently not been notified by the Hon'ble Supreme Court.

Based on a legal opinion and the Board of Directors' reliance on the provisions of the Concession Agreement (relating to compensation and other recourses), the Company is confident that the underlying value of the intangible and other assets are not impaired.

The Company continues to fulfil its obligations as per the Concession Agreement, including maintenance of Project Assets.

The Company has received the assessment order from Income Tax Department on December 27, 2019 u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961, for the Assessment Year 2016-17 and 2017, wherein a demand amounting to Rs.357 crores and Rs 383.48 crores respectively has been raised, based on the historical dispute with the Tax Department, which is primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future, valuation of land and other recoveries. The Company has filed an appeal with the first level Appellate Authority. With transition to Faceless Appeals, as introduced vide Faceless Appeal Scheme, 2020, both the appeals have been transferred to the National Faceless Appeal Center (NFAC). A notice was received from the NFAC fixing the date of compliance for January 13, 2021, however the matter was adjourned and no further Further, on May 15, 2021 the Company has received a Show Cause Notice u/s 270A from National Faceless Assessment Centre for the AY 2016-17 and AY 2017-18 and the

Company has requested to keep the penalty proceedings in abeyance as the appeals on merits are currently pending before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The Income Tax Department has, in earlier years, raised a demand of Rs.1,340.03 Crores which was primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future from toll and revenue subsidy on account of allotment of land. Pursuant upon the receipt of order from CIT(A) on April 25, 2018, the Company has received the notice of demand dated March 31, 2018 from the Assessing Officer (AO), Income Tax Department, New Delhi in respect of AYs 2006-07 to 2014-15 giving effect to the order from CIT (A), whereby an additional tax demand of Rs. 10,893.30 Crores was raised. The enhancement of the demand was primarily on account of valuation of land. The Company has filled an appeal along with the stay application with Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by ITAT on December 19, 2018, January 2, 2019 and February 6, 2019 and based on NCLAT order dated October 15, 2018, ITAT adjourned the matter sine die with directions to maintain status quo. In November 2018, the CIT (A), Noida passed a penalty order for AY 2006-07 to 2014-15, based on which the Assessing Officer Delhi imposed a penalty amounting to

Rs. 10,893.30 Crores in December 2018. The Company has filed an appeal along with a stay application with the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by the ITAT on March 29, 2019 and May 03, 2019. ITAT has adjourned the matter sine die, with directions to maintain status quo. In terms of an affidavit filed by the Ministry of Corporate Affairs with the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) on May 21, 2019, the cut-off date of October 15, 2018 ("Cut-off date") was proposed. The Hon'ble NCLAT vide its Order dated March 12, 2020, has approved the revised Resolution Framework submitted by the New Board along with its amendments. In the said Order, Hon'ble NCLAT has also approved October 15, 2018 as the Cut Off date for initiation of resolution process for IL&FS and its group

companies, including the Company. Accordingly, the Company has not accrued any interest on all its loans and borrowings with effect from October 15, 2018 ("Cut-off date"). Re-opening of the books of accounts, Investigations by Serious Fraud Investigation Office ("SFIO") and other regulatory agencies and forensic examination by Grant Thornton India LLP, which is under process for certain group entities, however the same does not have any impact on the financial statements/operations of the Company.

On September 28, 2018, a writ of demand was served by NOIDA on the Company, for an amount of Rs 3.69 crores, in relation to revenue from advertising on the NOIDA side of DND Flyway. The Company has requested NOIDA to keep the writ of demand in abeyance, since the matter has been referred to Arbitration by NOIDA and further no action can be taken against the Company due to the moratorium granted in view of the NCLAT order dated October 15, 2018. During December 2018 and April 2019, the Company has received an additional demand of Rs. 2.34 crores and Rs 2.42 crores towards arrears of license fee. The Company has

requested NOIDA to keep demand in abeyance since the matter has been referred to Arbitration by NOIDA. After the novel coronavirus (COVID-19) outbreak was declared as a global pandemic by World Health Organization on March 11, 2020, the Government of India, followed by

Government of NCT Delhi and Government of Uttar Pradesh, have, since March 16, 2020, been issuing various measures/directions/guidelines/orders to all commercial and industrial establishments and have imposed "lock-down" and curfews preventing inter-state and intra-state travel including requiring offices to be closed. As a result of the complete nationwide lockdown initially imposed from March 25, 2020 for 21 days and extended twice till May 31, 2020 and the gradual re-opening of limited activities in a calibrated manner in areas outside containment zones, there has been an impact on the revenue from operations (space for advertisement and the rental income from letting of office space) during the year ended March 31, 2021, owing to the restrictions and consequential waivers to Licensee. As businesses were starting to open up the second wave of COVID-19 hit the country and has derailed all economic activities. Phase wise lockdowns have again been imposed which may impact the revenue from operations of the Company during financial year 2021-22 as well. The Company will however continue to closely monitor any changes to the future economic conditions that may

have impact on its business and financial position. The Company continues to exhibit resilience amid these uncertain times and the management believes that considering the Company's historical performance and liquidity, the Company will be able to mitigate the risks associated with COVID-19.

The Company has also written to all concerned authorities (SDMC/EDMC/NOIDA) for remission/deferment in license fees/revenue share like many other parties and the concerned authorities were understood to be considering giving relief to licensees but a final response was awaited.

The Company has only one business segment and therefore reporting of segment wise information is not applicable. The fligures for the guarter ended March 31, 2021 and March 31, 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year ending March 31, 2021 and March 31, 2020 and the unaudited published year-to-date figures upto December 31, 2020 and December 31, 2019 respectively, being the date of the end of the third

quarter of the respective financial years which were subjected to limited review. 10 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure)

Requirement ) Regulation 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Company, National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.ntbcl.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

11 Previous year/ period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary. As per our separate report of even date attached

For N. M. Raiji & Co Place: Delhi Chartered Accountants Date: June 29, 2021 Firm Registration No.: 108296W For and on behalf of the Board of Directors Director



RAJKOT REGIONAL OFFICE: 1st Floor, Nagindas Chamber, Dhebar Road, Rajkot. Mail Id: recoveryrajkro@centralbank.co.in

**E-AUCTION** / **SALE NOTICE** 

E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) and guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged / charged to the secured creditor, the Physical Possession of which have been taken by the authorized officer of Central Bank of India, Secured creditors, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "whatever is there is" basison 20.07.2021 for recovery of due to the Central Bank of India from Borrower(s) and Guarantor(s). The Reserve Price and earnest money deposit (EMD) is displayed against the details of respective properties.

Name of the Borrowers / Guarantors / Mortgagers	Branch Contact Details	Demand Notice Date & Due Amount	Description of the Immovable Properties	Reserve Price & EMD 10%
R. K. Engineering	Authorised Officer,	02/05/2017	Plot No. 36, Ananddham Residency-2", Nr. Dharti Heights, Nr.	SE DEPOSESSED
Mr. Vijay Saradbhai Upadhyay (Proprietor)	Mr. A. K. Shrivastava,	Rs. 97,15,894.00 +	Khodiyar Cement Production, ahead of Sahiyar City and Eicher Shiw	Rs. 13,23,000/-
Mr. Ashwinbhai Sambhubhai Sojitra - (Guarantor)	B/o Bhaktinagar Mob. : 96876 90004	Interest + Other Charges thereon	Room, Opp. Ekta Petrol Pump, Nr. Okhalana Road, At Kot Vichhiya State Highway, On Jasdan Bye Pass, Near Khodiyar Cement Products, At: Jasdan, Dist.: Rajkot, Total Area: 315.9 Sq. Mts.	Rs. 1,32,300/-
S. K. Engineering	Authorised Officer,	01/08/2017	Residential Plot No. 39, R. S. No. 1141/1 and 1141/2 paiki at	Rs. 11,31,000/-
Ms Sonalben Kalpeshbhai Vaghasiya (Proprietor) Guarantors : Mr. Kalpesh Jayantibhai Vaghasiya, Guarantor Mr. Ashwinbhai Sambhubhai Sojitra - Guarantor (Property owner)	Mr. A. K. Shrivastava, B/o Bhaktinagar Mob.: 96876 90004	Rs. 99,31,458.00 + Interest + Other Charges thereon	Ananddham Residency, At : Kot - Vichhiya State Highway, Jasdan Bypass, Jasdan, Dist. : Rajkot. Total Area : 269.75 Sq. Mts.	Rs. 1,13,100/-

Date of E-Auction: 20/07/2021 • Time - 12.00 NOON to 2.00 PM with Auto extension of 10 Minutes. Date of Inspection & Time: 13/07/2021 Between 12.00 Noon to 3.00 PM

Bidder will register on website https://mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp and upload KYC documents and after verification of KYC documents by the service provider, EMD to Be Deposited In Global EMD wallet through NEFT/RTGS/transfer

(after generation of challan from https://mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp) The auction will be conducted through the Bank's approved service provider "https://www.mstcecommerce.com" E - Auction will be held "As is where is", "As is what is" and "whatever is there is" basis. For detailed terms and conditions please refer to the link provided in www.centralbankofindia.co.in secured creditor or https://www.ibapi.in or auction platform for auction related educational videos

{https://mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp}. MSTC Helpline No.: 033-22901004. STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Borrowers/Guarantors/ Mortgagors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with up to date interest and ancillary expenses before the date of e-auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

Date: 29/06/2021, Place: RAJKOT Sd/- Authorised Officer, Central Bank of India

SUVIDHAA INFOSERVE LIMITED

(CIN: L72900GJ2007PLC109642)

Registered Office: Unit No 02, 28th Floor, GIFT-II Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5, Gift City Gandhinagar 382355 Corporate Office: 14, Olympus Industrial Estate, Off Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400093 Tel.: + 91 9223225225 E-mail: cs@suvidhaa.com Website: www.suvidhaa.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2021 (Rupees in million, except per share data and if otherwise stated)

			Standalone	f)	Consolidated			
Sr. No	Particulars	Quarter ended on	Year ended on	Quarter ended on	Quarter ended on	Year ended on	Quarter ended on	
		(Audited) 31/03/2021		(Unaudited) 31/03/2020		(Audited) 31/03/2021	(Audited) 31/03/2020	
1	Total Income	209.3	1140.5	489.0	218.2	1167.1	719.0	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(74.7)	(68.3)	7.2	(65.3)	(50.1)	(49.0	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(72.7)	(63.3)	11.7	(63.3)	(45.1)	(44.5	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(67.9)	(58.5)	6.9	(58.5)	(40.3)	(49.3	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(67.7)	(57.9)	8.1	(58.2)	(39.6)	(49.3	
6	Paid-up equity share capital (Face Value of the share Re. 1/- each)	203.3	203.3	105.8	203.3	203.3	105.8	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	100	1204.0			601.7		
8	Earnings Per Share (Face value of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1 Basic 2 Diluted	(0.33)	(0.29)	0.06	(0.29)	(0.20)	(0.47)	

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Company at www.suvidhaa.com
- The exceptional item for the quarter ended 31st March, 2021 and twelve months ended 31st March, 2021 is on account of settlement of insurance claim.

The above Financial Results are reviewed and recommended by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held

For, Suvidhaa Infoserve Limited

Date: 29th June, 2021 Place: Mumbai



Regd. Office: 7th Floor, Hasubhai Chambers, Opp. Town Hall, Ellisbridge, Ahmedabad- 380006,

(CIN - L24231GJ1998PLC034094)

**Quarter Ended** 

Phone No. (O) 079-26574371/72/73, (F) 079-26574374, Email: info@kiriindustries.com website: www.kiriindustries.com

Extract of audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2021 (Rs. In Lakhs)

**Particulars** (31/03/2021) (31/12/2020) (31/03/2020) (31/03/2021) (31/03/2020) (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) 95,926.59 1,31,067.55 Total income from Operations 36,334.88 31,099.57 30,039.05 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional 2,643.69 3,490.97 2,002.13 3,469.58 14,210.99 and/or Extraordinary items) Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 3,490.97 3,469.58 14,210.99 2,643.69 2,002.13 Net Profit for the period after tax (after Exceptional 3,920.90 2,054.86 and/or Extraordinary items) 1,819.63 2,177.30 11,569.61 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 11,613.89 14,881.32 25,238.03 37,498.67 11,139.74 Paid up Equity Share Capital 3,362.06 3,362.06 3,362.06 3,362.06 3,362.06 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 2,15,082.46 1,89,981.10 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)(for continuing and discontinued operations) Basic: 34.54 44.26 33.13 75.07 114.33 22.41 28.71 21.49 48.69 72.34 Diluted:

Brief details of audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2021

				(H	Rs. In Lakhs)
		Quarter Ende	d	Year	Ended
Particulars	(31/03/2021)	(31/12/2020)	(31/03/2020)	(31/03/2021)	(31/03/2020)
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income from Operations	27,553.37	23,499.82	21,445.91	69,117.36	97,318.16
Profit/(Loss) Before Tax	1,328.10	349.62	114.33	(4,174.48)	5,914.84
Net Profit/(Loss) for the period after tax	2,220.65	324.95	3.43	(3,655.91)	5,018.62

### Note:

- 1. The above is an extract of the detailed audited financial results (Results) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Financial Results are available on website of Stock Exchanges (www.bseindia.com & www. nseindia.com) as well as on the Company's website www.kiriindustries.com.
- 2. The above Results were reviewed by the Audit committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on June 28, 2021.

For Kiri Industries Limited Manish Kiri

By order of the Board of Directors

Naresh Sharma

(DIN: 09071085)

Managing Director

**Year Ended** 

financialexp.epaps.in

Vinay D. Balse

Partner

Membership No.: 039434

Date: June 28, 2021

Place: Ahmedabad  Managing Director

# कोविशील्ड की खुराक में लंबे अंतराल से फायदा

दोनों टीके में 11 महीने के अंतराल पर बेहतर प्रतिरक्षा क्षमता

नई दिल्ली, 29 जून (भाषा)।

कोविशील्ड का कोविड-19 रोधी टीका 45 हफ्तों के लंबे अंतराल पर दिए जाने पर बेहतर प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न करता है। वहीं, इसकी तीसरी खुराक एंटीबॉडी को और अधिक बढ़ा देगी। ब्रिटेन में किए गए एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। अध्ययन के मुताबिक कोविशील्ड टीका, उसकी एकमात्र खुराक के बाद भी कम से कम एक साल तक एंटीबॉडी स्तर बना रहता है। भारत में इसकी दो खुराक के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतराल रखा गया है।

अध्ययन के लेखकों ने इस बात का जिक्र किया कि कोविशील्ड टीके की पहली और दूसरी खुराक के बीच 45 हफ्तों या 11 महीने का विस्तारित अंतराल रखे जाने पर दूसरी खुराक के 28 दिन बाद मापे गए एंटीबॉडी स्तर में 18 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। यह अध्ययन सोमवार को द लांसेट के प्री-प्रिंट सर्वर में पोस्ट किया गया है। अध्ययन में 18 से 55 साल की आयु के

पंजाब में 300

यूनिट मुफ्त बिजली

देंगे: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद

केजरीवाल ने मंगलवार को पंजाब में

आम आदमी पार्टी (आप) की

सरकार बनने पर प्रत्येक घर को हर

महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली

देने का वादा किया। पंजाब में अगले

साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

आप के नेता ने उनकी पार्टी के सत्ता

में आने पर पंजाब में चौबीस घंटे

बिजली देने और लंबित बिजली

बिलों को माफ करने का भी वादा

उन्होंने यहां मीडिया को

संबोधित करते हुए ये घोषणाएं की।

केजरीवाल ने कहा कि बिजली

उत्पादक राज्य होने के बावजूद

पंजाब में बिजली देश में 'सबसे

महंगी' है। उन्होंने कहा, 'हम दिल्ली

में बिजली का उत्पादन नहीं करते

हैं। हम इसे दूसरे राज्यों से खरीदते

हैं और इसके बावजूद हमारे पास

राष्ट्रीय राजधानी में लगभग सबसे

किया।

चंडीगढ़, २९ जून (भाषा)।

ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने यह अध्ययन किया। उन्होंने पहली और दूसरी खुराक के बीच विस्तारित अंतराल और बाद में एक खुराक देने के बाद प्रतिरक्षा क्षमता का आकलन किया। अध्ययन के मुताबिक पहली और दूसरी खुराक के बीच 45 हफ्तों का अंतराल रखे जाने पर एंटीबॉडी का स्तर 12 हफ्तों के अंतराल पर दी गई खुराक से चार गुना अधिक था।

स्वयंसेवियों को शामिल किया गया। उन्हें कोविशील्ड की एक ख़ुराक या दो ख़ुराक दी गई

ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने यह अध्ययन किया। उन्होंने पहली और दूसरी ख़ुराक के बीच विस्तारित अंतराल और बाद में एक खुराक देने के बाद प्रतिरक्षा क्षमता का आकलन किया। अध्ययन के मुताबिक पहली और दूसरी ख़ुराक के बीच 45 हफ्तों का अंतराल रखे जाने पर एंटीबॉडी का स्तर 12 हफ्तों के अंतराल पर दी गई ख़ुराक से चार गुना अधिक था। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन से यह प्रर्दिशत होता है कि दो ख़ुराक के बीच लंबा अंतराल रखने से मजबूत प्रतिरक्षा विकसित होती है।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड टीका समृह के निदेशक एंड्रीय जे पोलार्ड ने कहा, 'टीके की कम आपूर्ति वाले देशों के लिए यह एक आश्वस्त करने वाली खबर होनी चाहिए।' पोलार्ड ने एक बयान में कहा, 'पहली खुराक के 10 महीने के अंतराल पर दूसरी ख़ुराक दिए जाने पर शानदार नतीजे देखने को मिले।' अनुसंधानकर्ताओं ने उल्लेख किया कि कुछ देश भविष्य में तीसरी 'बूस्टर' खुराक देने पर विचार कर रहे हैं। अध्ययन के नतीजों के मताबिक कोविड-19 के अल्फा, बीटा और डेल्टा स्वरूपों के खिलाफ तीसरी खुराक का अत्यधिक प्रभावकारी असर देखने को मिला है।

## कोरोना की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है: हर्षवर्धन

हर हाल में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन जरूरी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 29 जून।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि काफी दिनों बाद देश में 40 हजार से कम कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में भी अभी 37 हजार मामले दर्ज किए जा रहे हैं और यह लहर अभी समाप्त नहीं हुई। ऐसे में लापरवाही करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें लगातार कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाते रहना है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज कोरोना विषाण संक्रमण रोधी टीके की देश में 33 करोड़ से अधिक ख़ुराक दी जा चुकी हैं। दिल्ली में जलजनित रोगों की रोकथाम को लेकर की गई समीक्षा बैठक के बाद हर्षवर्धन मीडिया से बात कर रहे थे।

इससे पहले इस बैठक में हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली से मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य 2020 रखा गया था, जिसे बढा कर 2022 तय किया गया है। यह लक्ष्य कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मलेरिया के उन्मूलन में हमें पोलियो और चेचक

के उन्मूलन तथा कोविड के खिलाफ जंग का अनुभव सहायक सिद्ध होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली मलेरिया के उन्मूलन की दृष्टि से लेवल-1 श्रेणी के राज्यों में शामिल है। उन्होंने बैठक में भाग ले रहे सभी अधिकारियों को आशा का संदेश देते हुए बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तीन वर्ष की मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार इस रोग के अधिक मामले वाले 11 देशों में भारत का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। उन्होंने बताया कि बीमारी और मृत्यु में 83 फीसद कमी आई है। उन्होंने कहा कि मलेरिया और डेंग् को सुचनीय बनाए जाने के मामले में दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी है।

उन्होंने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि वह मलेरिया और डेंग को सचनीय घोषित करे, ताकि प्रत्येक मरीज पर निगरानी रखकर मलेरिया उन्मूलन के कार्य को आसान बनाया जा सके। इन दोनों रोगों को सूचनीय बनाए जाने से प्रत्येक मामले की सरकार को सूचना देना अनिवार्य हो जाएगा। इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के तीनों नगर निगमों के महापौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्चअल रूप से भाग लिया।

## मुंबई फर्जी टीकाकरण मामले में डॉक्टर ने किया समर्पण

मुंबई, 29 जून (भाषा)।

सस्ती दरों पर बिजली है।'

मुंबई के कांदिवली पुलिस थाने में दर्ज, 'फर्जी' टीकाकरण के मामले में वांछित एक डॉक्टर ने मंगलवार को पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इससे एक दिन पहले सत्र

अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका घटना में आरोपी छह लोगों में से एक त्रिपाठी खारिज कर दी थी।

पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर ने बताया कि अपराध में डॉ मनीष त्रिपाठी की संलिप्तता की पृष्टि होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कांदिवली में स्थित एक आवासीय परिसर में पिछले महीने चलाए गए 'फर्जी' टीकाकरण की

है। पुलिस इस मामले में पहले ही छह लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अधिकारी ने बताया कि दोपहर को डॉ त्रिपाठी कांदिवली पुलिस थाने पहुंचा और समर्पण कर दिया। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन अब विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है।

सेंट्रल विस्टा निर्माण कार्य पर रोक लगाने का मामला

## हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपोल खारिज

नई दिल्ली, 29 जून (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने 'सेंट्रल विस्टा' के निर्माण कार्य को कोरोना विषाणु वैश्विक महामारी के मद्देनजर रोक लगाने से इंकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने चुन कर सेंट्रल विस्टा परियोजना कार्यालय भवन और मंत्रालयों के का निर्माण कार्य रोकने का अनुरोध कार्यालयों के लिए केंद्रीय किया और राष्ट्रीय राजधानी में सिचवालय का निर्माण होना है। पूर्णबंदी के दौरान जारी अन्य

उच्च न्यायालय ने 31 मई को इस क्यों जारी रखा।

परियोजना पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दी थी इसके साथ याचिकाकर्ताओ पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए एक लाख रुपए के जुर्माने के मामले में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और एक नए आवासीय परिसर के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और उप-राष्ट्रपति के आवास के साथ-साथ कई नए

पीठ ने सुनवाई के दौरान सार्वजनिक परियोजनाओं के बारे में कहा, 'यदि आपका आचरण यह बुनियादी शोध भी नहीं किया था। था, तो एक लाख रुपए जुर्माना ँ पीठ ने कहा कि उच्च कम है।' उसने कहा कि जब न्यायालय ने जनहित याचिका के उच्च न्यायालय में हलफनामा बारे में कहा था कि यह 'दुर्भावना दाखिल किया गया था कि से प्रेरित' थी और इसमें परियोजना में कोविड-19 संबंधी 'प्रमाणिकता का अभाव' था तथा प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन यह भी एक नजरिया हो सकता है। किया गया, तो आपने मुकदमा

### नीट पर समिति के गठन को लेकर तमिलनाडु सरकार से सवाल

चेन्नई, २९ जून (भाषा)।

मद्रास उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रभाव पर तमिलनाडु सरकार द्वारा समिति के गठन पर मंगलवार को राज्य सरकार से कई सवाल पूछे। अदालत ने पूछा कि क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय की अनुमित ली है और कहीं इससे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन तो नहीं होता।

सत्ताधारी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने चुनाव में नीट को समाप्त करने का वादा किया था और हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके राजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने सरकार से जो सवाल पूछे उनमें से एक था, 'क्या आपने उच्चतम न्यायालय (जिसने नीट कराने को कहा था) से अनुमित ली है?



टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड सी.आई.एन: L92200DL1999PLC103001, वेबसाइट: www.aajtak.intoday.in पंजीकृत कार्यालयः F-26, फस्ट पलोर, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 फोनः 0120-4807100, फैक्सः 0120 4807172 ईमेलः investors@aajtak.com

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के संचालक मंडल की सभा शुक्रवार दिनॉक 13 अगस्त, 2021 को होनी निर्धारित हुई है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के स्टैंडअलोन एवं कन्सोलिडेटड अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

सूचना

दिनांकः 29 जून, 2021 स्थानः नई दिल्ली

कृत टी.वी. दुडे नेटवर्क लिमिटेड आशीष सभरवाल

ग्रूप हेड सेक्रेटेरयल एवं कंपनी सचिव सदस्यता नंबर: F4991

यह सूचना कंपनी वेबसाइट www.aajtak.intoday.in एवं स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड

पंजी. कार्याः टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091

टेली.: 0120-2516495, फैक्स: 0120-2516440

CIN. No: L45101DL1996PLC315772; वेबसाईट: www.ntbcl.com ईमेल: ntbcl@ntbcl.com

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष का अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

	( रु. लाख म)											
9 8	1			स्टैंडएलॉन		. 8	समेकित					
क्रम		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही				समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष	
सं.	विवरण	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	
		लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)	प्रचालनों से कुल आय	647.73	388.11	912.12	1358.74	2936.88	649.24	389.69	920.27	1362.01	2954.22	
(ii)	कर से पूर्व प्रचालनों से लाभ/(हानि)	(793.13)	(986.40)	(514.47)	(4045.60)	(3105.09)	(780.13)	(973.11)	(494.85)	(3995.49)	(3036.91)	
(iii)	जारी प्रचालनों से शुद्ध लाभ/(हानि)	(793.13)	(986.40)	(514.47)	(4045.60)	(3105.09)	(780.13)	(973.11)	(494.85)	(3995.49)	(3036.91)	
(iv)	कुल अन्य व्यापक आय	(1.54)	0.42	1.28	(0.28)	1.43	(0.89)	0.01	(1.80)	(0.88)	0.35	
(v)	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	(794.67)	(985.98)	(513.19)	(4045.88)	(3103.66)	(781.02)	(973.10)	(493.05)	(3996.37)	(3036.56)	
(vi)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 10 प्रत्येक का अंकित	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	
	मूल्य)											
(vii)	आरक्षिति (गत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर)	एन/ए	एन/ए	एन/ए	12677.95	16723.83	एन/ए	एन/ए	एन/ए	12649.45	16617.85	
(viii)	आय प्रति शेयर		8	Z 3		5 3	0.					
	बेसिक	(0.43)	(0.53)	(0.28)	(2.17)	(1.67)	(0.42)	(0.52)	(0.27)	(2.15)	(1.63)	
	डाइल्यूटेड	(0.43)	(0.53)	(0.28)	(2.17)	(1.67)	(0.42)	(0.52)	(0.27)	(2.15)	(1.63)	
6												

टिप्पणी तथा वित्तीय परिणाम

. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 27 जून, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये।

. 2012) में दाखिल जनहित लिटिगेशन (रियायत अनुबंध की वैधता को चुनौती देने तथा रियायत अनुबंध को रद्द कराने के लिये) पर अपने फैसले तिथि 26 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कम्पनी को शुल्क की लेवी तथा संग्रहण से संबंधित दो विशिष्ट प्रावधानों को गैर-प्रचालनात्मक ठहराते हुए उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण पर रोक लगाने का निर्देश दिय था लेकिन रियायत अनुबंध को निरस्त करने से इंकार कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप नोएडा–दिल्ली टोल रोड के उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण 26 अक्टूबर, 2016 से निलम्बित रहा है जिसके लिये उक्त फैसले पर अंतरिम स्थगन लगाने के लिये भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दााखिल किया गया है।

11 नवम्बर. 2016 को अपने अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन से इंकार कर दिया लेकिन, यह पता लगाने के लिये सीएजी की सहायता मांगी कि क्या रियायत अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना की कुल लागत कम्पनी द्वारा वसुल कर ली गयी है या नहीं। सीएजी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दिया है। 14 सितम्बर, 2018 को अपनी अंतिम सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सीएजी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट मृहरबंद लिफाफे में रखी जाये। स्पेशल लीव पेटिशन (एसएलपी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लिये अभी भी लिम्बित है। कंपनी ने नोएडा को भी अधिसुचित कर दिया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के

साथ पठित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रियायत अनुबंध के अंतर्गत 'कानून में परिवर्तन' का गठन करता है तथा रियायत अनुबंध के सुधार के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव जमा किय ताकि उसे उसी रूप में विधिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक हैसियत में स्थापित किया जाये जो कानून के उक्त परिवर्तन से पूर्व में था। चुंकि, नोएडा ने इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया, कम्पनी ने नोएड के पास विवाचन की एक सुचना भेजी है। विवाचन अधिकरण का गठन कर लिया गया है तथा कंपनी एवं नोएडा दोनों ने अपने दावे तथा प्रति दावे जमा किये हैं। फिर, नोएडा विवाचन कार्यवाही की मैन्टनैबिलिटी पर धारा 16 के अंतर्गत एक

आवेदन दाखिल किया है लिये आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 द्वारा विवाचन अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया। विवाचन तथा कंसिलिएशन अधिनियम 1961 की धारा 34 के अंतर्गत आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 को चुनौती देते हुए नोएडा ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाचन कार्यवाहियों के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। जिसे नोएडा को कोई राहत दिये बिना दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 31 जनवरी 2019 को निपटारा कर दिया गया है। 12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाचन कार्यवाहियों पर स्टे का निर्देश दिया। कम्पनी 31 जनवरी, 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित विवाचन कार्यवाहियों पर स्टे को हटाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अर्जी दाखिल की।

कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकलाप केवल तत्काल महत्व के मामले तक सीमित था। तत्काल महत्व के मामले का पत्र दाखिल करने के उपरांत 21 सितम्बर, 2020 05 अक्टूबर, 2020, 18 नवम्बर, 2020, 20 जनवरी, 2021 , 16 मार्च, 2021 तथा 15 अप्रैल, 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई की गई। लेकिन, मामले पर कोई प्रभावकारी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई की अगली तिथि वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है। कम्पनी परियोजना की परिसम्पत्तियों के रखरखाव सहित रियायत अनुबंध के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा कर रही है।

कम्पनी ने गणना वर्ष 2016-17 तथा 2017 के लिए आय कर अधिनियम 1961 की धारा 143 (3) के अंतर्गत 27 दिसम्बर, 2019 को आयकर विभाग से गणना आदेश प्राप्त किया जिसमें क्रमश 357 करोड़ तथा 383.48 करोड़ राशि की मांग की गई जो कर विभाग के साथ ऐतिहासिक विवाद पर आधारित था जो मुख्य रूप से भविष्य में भूमि के मूल्यांकन तथा अन्य रिकवरीज की वसूली की जाने वाली विनिर्दिष्ट रिटर्न्स के एरिअर्स के संवर्धन के कारण थी। कम्पनी ने प्रथम स्तर के अपीलीय प्राधिकरण में अपील दाखिल किया। फेसलेस अपील स्कीम 2020 के माध्यम से शुरू की गई फेसलेस अपील के संक्रमण के साथ दोनों अपील नेशनल फेसलेस अपील सेन्टर (एनएफएसी) में अंतरित कर दिया गया। 13 जनवरी, 2021 के अनुपालन की तिथि को निर्धारित करते हुए एनएफएसी से एक सूचना प्राप्त हुई, लेकिन मामले को स्थगित कर दिया गया तथा उसके बाद कोई आगे सूचना प्राप्त नहीं हुई। पुनः 15 मई, 2021 को कम्पनी ने वर्ष 2016–17 तथा एवाई 2017–18 के लिये नेशनल फेसलेस एसेसमेन्ट सेन्टर से धारा 270 ए के अंतर्गत कारण बताओ सूचना प्राप्त की तथा कम्पनी ने दंड कार्रवाई को आस्थगित रखने का अनुरोध किया है, क्योंकि मेरिट्स पर अपील आय कर आयक्त (अपील) के समक्ष वर्तमान में लम्बित है।

पूर्व वर्षों में आयकर विभाग रु. 1340.03 करोड़ की मांग की थी जो मुख्य रूप से भूमि के आवंटन के कारण टोल तथा राजस्व अनुदान से भविष्य में वसूल की जाने वाली विनिर्दिष्ट रिटर्न्स के एरिअस की वृद्धि के कारण था। 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से प्राप्त आदेश के उपरांत कम्पनी ने सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावी करने के लिये एवाई 2006-07 से 2014-15 के संदर्भ मे गणना अधिकारी (एओ), आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग सूचना तिथि 31 मार्च, 2018 प्राप्त की जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई। मांग में वृद्धि का मुख्य कारण भूमि के मूल्य में वृद्धि थी। कम्पनी ने आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ अपील दाखिल किया। 19 दिसम्बर, 2018, 2 जनवरी, 2019 तथा 6 फरवरी, 2019 को आईटीएटी द्वारा मामले पर सुनवाई की गई तथा एनसीएलटी के आदेश तिथि 15 अक्टूबर, 2018 के आधार पर आईटीएटी ने यथा स्थित कायम रखने के निर्देशों के साथ मामले को अनिश्चितकाल

का दंड लगाया। कम्पनी ने आयकर अधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आदेश के साथ अपील दाखिल की। इस मामले पर आईटीएटी द्वारा 29 मार्च, 2019 तथा 3 मई, 2019 को मामले की सुनवाई की। आईटीएटी ने यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ मामले का अनिश्चित काल के लिये स्थिगित कर दिया। . 21 मई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलएटी) के पास कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दाखिल शपथ पत्र के अनुसार 15 अक्टूबर, 2018 (''कट-ऑफ तिथि'') को कट-ऑफ तिथि का प्रस्ताव किया गया। अपने आदेश तिथि 12 मार्च, 2020 के माध्यम से माननीय एनसीएलटी ने उसके संशोधनों के साथ नये बोर्ड द्वारा जमा की गई संशोधित समाधान फ्रेमवर्क को अनुमोदित

नवम्बर, 2018 में सीआईटी (ए) नोएडा ने एफवाई 2006-07 से 2014-15 के लिये दंड आदेश पारित किया जिसके आधार पर गणना अधिकारी, दिल्ली ने दिसम्बर, 2018 में रु. 10893.30 करोड

किया। उक्त आदेश में माननीय एनसीएलटी ने 15 अक्टूबर, 2018 को आईएल एंड एफएस तथा कम्पनी सहित उसकी समृह की कम्पनियों के लिये समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिये कट-ऑफ तिथि के रूप में स्वीकृति दी। तदनुसार, कम्पनी ने 15 अक्टूबर, 2018 (''कट-ऑफ तिथि'') से उसकी सभी ऋणों तथा उधारों पर कोई ब्याज उपचियत नहीं की है। लेखा पुस्तकों का फिर से खुलना, सीरिअस फ्राउड जांच कार्यालय (''एसएफआईओ'') तथा ग्रान्ट थार्नटन इंडिया एलएलपी द्वारा फारेन्सिक परीक्षा तथा अन्य विनियामक एजेन्सियो द्वारा जांच जो कुछ विशेष समूह की सत्ताओं के लिये प्रक्रिया के अधीन है, लेकिन, कम्पनी की वित्तीय विवरण तथा प्रचालनों पर उसका कोई प्रभाव नहीं है।

28 सितंबर, 2018 को नोएडा द्वारा कम्पनी को मांग का एक रिट सर्व किया गया क्योंकि डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा साइड में विज्ञापन से राजस्व के संदर्भ में कंपनी से रु. 3.69 करोड़ की मांग उठाई गई। कंपनी ने नोएडा से मांग के इस रिट को आस्थिगित रखने का अनुरोध किया क्योंकि नोएडा द्वारा इस मामले को विवाचन में दिया गया है तथा इतना ही नहीं एनसीएलएटी आदेश तिथि 15 अक्तूबर, 2018 को देखते हुए स्वीकृत मोरैटोरियम के कारण कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

दिसम्बर, 2018 तथा अप्रैल, 2019 के दौरान कम्पनी ने लाइसैंस शुल्क के एरिअर के लिये रु. 2.34 करोड़ तथा रु. 2.42 करोड़ की अतिरिक्त मांग प्राप्त की। कम्पनी ने नोएडा से इस मांग के

आस्थिगित रखने का अनुरोध किया है, क्योंकि इस मामले को नोएडा द्वारा आर्बीट्रेशन में भेजा गया है। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी जिसे 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, भारत सरकार तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार 16 मार्च, 2020 से समस्त वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए तथा ''लॉक-डाउन'' एवं कर्फ्यू लगाने और राज्य से बाहर तथा भीतर यात्रा करने तथा कार्यालयों को बन्द करने के

लिए विभिन्न उपाय/दिशा-निर्देश/निर्देश/आदेश जारी कर रही हैं। प्रारम्भ में 25 मार्च, 2020 से 21 दिनों के लिए लगाये गये राष्ट्रव्यापी पूर्ण लॉकडाउन तथा दुबारा 31 मई, 2020 तक बढ़ाये जाने के कारण और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग र सीमित गतिविधियों को धीरे-धीरे पुनः खोलने के कारण प्रतिबन्धों एवं परिणामी प्रभावों से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से आय (विज्ञापन हेतु स्पेस तथा कार्यालय स्थल से भाड़े के रूप में आय) पर प्रभाव पड़ा है। ज्योंही व्यावसायिक गतिविधि शुरू हुई, देश में कोविड-19 का दूसरा चरण शुरू होगा तथा सभी आर्थिक गतिविधियों में गतिरोध उत्पन्न हो गया। पुनः चरणबद्ध तरीके से लॉक डाउन लगाया गया जिससे 2021-20 के वित्त वर्ष के दौरान भी प्रचालनों से कम्पनी के राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी, कम्पनी अपने व्यवसायों तथा वित्तीय स्थितियों प

इन कठिन अनिश्चित परिस्थितियों के बीच कम्पनी दृढ़ता का प्रदर्शन करती रहेगी तथा प्रबंधन का मानना है कि कम्पनी के ऐतिहासिक प्रदर्शन तथा तरलता का विचार करते हुए कम्पनी कोविड-19 से जुड़ी जोखिमों से निपटने में सक्षम होगी

कम्पनी ने अन्य कई पार्टियों की तरह लाइसैन्स शुल्क/राजस्व शेयर में छूट/ कमी के लिये सभी संबंधित प्राधिकरणों को लिखा है तथा संबंधित प्राधिकरण से अपेक्षा है कि वे लाइसैन्स में राहत देने प विचार करेंगे लेकिन अंतिम प्रत्युत्तर की प्रत्याशा है।

कंपनी के पास एक ही व्यवसाय खंड है तथा इसलिए खंड-वार जानकारी का विवरण लागू नहीं है।

होने वाले भविष्य के आर्थिक प्रभावों एवं परिवर्तनों पर गहनता से निगरानी करती रहेगी।

. 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले सम्पूर्ण वित्त वर्ष तथा क्रमशः 31 दिसम्बर, 2020 तथा 31 दिसम्बर 2019 जो संबंधित वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की समाप्ति की तिथि है, तक प्रकाशित तिथि तक वर्ष के अंकेक्षित आंकड़े के संदर्भ में अंकेक्षित आंकड़ों के बीच संतुलक आंकड़े हैं जो सीमित समीक्ष

10. उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटों क्रमशः www.ntbcl.com, www.nseindia.com तथ www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

।1. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनर्समूहीकृत⁄ पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

संलग्न सम तिथि की हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर रं विनय डी. बाल्से कृते एन. एम. राईजी एंड क. स्थान : दिल्ली चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स तिथि : 29 जून, 2021 फर्म पंजीकरण सं. 108296W सदस्यता सं.: 039434



## रेल विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कॉमा प्लेस, आर.के.पुरम, नुई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली-110066 ई-मेलः investors@rvnl.org वेबसाइट : www.rvnl.org सीआईएनः L74999DL2003GOI118633

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सार

(रू करोड़ में ईपीएस को छोड़कर)

	विवरण	5300					STITUTEST				
क्र.सं.		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
ar. VI.		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से राजस्व	5,577.88	3,732.38	4,220.67	15,403.65	14,530.58	5,577.92	3,732.44	4,220.67	15,403.76	14,530.58
2	अन्य आय	72.34	132.45	56.58	326.75	265,58	67.36	119.97	56.61	309.32	245.68
3	कुल राजस्व	5,650.22	3,864.83	4,277.25	15,730.40	14,796.16	5,645.28	3,852.41	4,277.28	15,713.08	14,776.26
4	निवल लाभ/(हानि) कर पूर्व	413.28	342.21	248.74	1,155.67	990.83	382.04	342.46	298.78	1,137.55	957.65
5	निवल लाम/(हानि) कर पश्चात	343.88	280.77	197.29	940.55	789.85	312.63	281.02	247.33	922.41	756.65
6	अपवादात्मक मर्दे	0	0		<u> </u>	1243	241	2		- 2	12
7	अवधि / वर्ष के लिए कुल समग्र आय / (हानि)	344.65	280.69	195.67	941.17	787.80	313.40	280.94	245.72	923.03	754.61
8	प्रदत्त-इक्विटी शेयर पूंजी (/ रू 10 प्रति शेयर अकित मूल्य)	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02
9	"अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यन आरक्षित को छोड़कर (लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार)"				2,880.56	2,414.75				3,481.87	3,034.22
10	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)										
10.1	मूल (रू)	1.65	1.35	0.95	4.51	3.79	1.50	1.35	1.19	4.42	3.63
10.2	तनुकृत (रू)	1.65	1.35	0.95	4.51	3.79	1.50	1.35	1.19	4.42	3.63

 उक्त एकल / समेकित वित्तीय परिणामों लेखा परीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षण और अनुशंसा तथा निर्देशक मंडल द्वारा 29.06.2021 को हुई इनकी बैठक में अनुमोदन किया तथा कंपनी के साविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया गया है। साविधिक लेखा परीक्षकों ने संशोधन रहित मत व्यक्त किया है। 2. अंतिम तिमाही के आंकड़े पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों तथा प्रकाशित वर्ष के अद्यतन आंकड़ों से लेकर संगत वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के

 एकल/समेकित वित्तीय परिणाम कंपनीज अधिनियम, 2013 के अनुब्हेद 133 के अधीन यथा अधिसुचित कंपनीज (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित और कंपनीज (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम. 2016 तथा अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन व्यवहाअरॉ और यथा लागू नीतियों के तहत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुरूप तैयार किए गए हैं। कंपनी / समृह एक एकल प्रतिवेदनीय प्रचालन खंड 'रेल अवसंरचना के विकास' में प्रचालन करती है. अतः इंड एएस 108-प्रचालन खंडों के अनुरूप कोई पृथक

5. 20 सितंबर 2019 को जारी कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 115बीएए अंतर्वेशित की गई है, जो घरेलु कंपनियों

को कुछ शर्तों के अधीन 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी घंटी दरों पर कार्पोरेट टैक्स का भुगतान करने के गैर परिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाती है। कम्पनी ने अभी इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया है। 6. कंपनी ने रू 237.69 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। निदेशक मंडल ने, वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के विषयाधीन, विलीय वर्ष 2020-21 के लिए रू 10/- प्रति इविवटी शेवर अंकित मूल्य पर प्रति इविवटी शेवर उपिक के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। 7. कंपनी ने कार्यस्थल से श्रमिकों के प्रवास को रोकने के दृष्टिकोण के तहत मानवीय आधार पर एक नीति तैयार की थी और इस आशय का एक परिपन्न जारी किया,

जिसमें कोविड-19 के दौरान विभिन्न कार्यस्थलों पर श्रीमकों को सहायता, जैसे कि उनके रहने, भोजन, रोगियों को दूसरों से अलग करने, अस्पतालों में पहुंचाने आदि की व्यवस्था आदि, प्रदान की गई और तदनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में 50 करोड़ रू का प्रावधान किया गया। यदापि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस खाते पर होने वाले व्यय को ठेकदारों को वहन करना होगा और इसलिए निष्कर्ष निकाला गया कि आरवीएनएल पर कोई दायित्व नहीं है और पिछले वर्ष में किए गए प्रावधान को अब रिटन बैक किया गया है। 8. विश्व और भारत में कोविड-19 महामारी जारी रहने के बावजूद, कंपनी टर्नओवर में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने में सक्षम रही है। प्रबंधन के आंकलन के मददेनजर, कंपनी के व्यवसाय पर संभावित प्रभाव केवल अल्पाविध के लिए है और कोई मध्यम से दीर्घकालिक जोखिम नहीं माना जाता है जो कंपनी के अग्रसर रहने की क्षमता पर प्रभाव डालेगा। वित्त वर्ष 2020–21 में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख उम्मीद है। कंपनी ने 2021-22 में वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया है जो (क) अपर्याप्त निधियों का प्रावधान, (ख) लॉक डाउन अवधि के दौरान मजदूरों और सामानों की अनुपलब्धता, (ग) परिवहन आदि पर प्रतिबंधों का प्रभाव के कारण हो संकता है, इस प्रकार मूल्यांकित किए गए प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसके अलावा, कंपनी की व्यावसायिक योजनाओं और रेल मंत्रालय के 2021—22 में परियोजना निष्पादन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने कें आरवासन पर विचार करते हुए प्रबंधन को अपने व्यवसाय संचालन को जारी रखने में कोई अनिश्चिततओं की पहचान करने के लिए विकास की निगरानी करना

 जहां कहीं आवश्यक हुआ पूर्व अवधियों / वर्ष के आंकडे चालू अवधि / वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए पुनर्समृहित, पुन:वर्गीकृत / पुन: व्यवस्थित किए गए हैं। 10. भारत सरकार ने निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) का ज्ञा. दिनांक 23.03.2021 के जरिए आरवीएनएल को प्रदत्त इक्विटी शेयर्स के

10 प्रतिशत के बेस साइज की बिक्री हेतु, अधिक सब्सक्रिप्शन के मामले में प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त शेयरों की बिक्री के विकल्प के साथ, बिक्री का प्रस्ताव (ओएफएस) रखने के लिए निर्देशित किया। फलोर मूल्य प्रति शेयर रू 27.50 रखा गया। 2009,33,926 इविवटी शेयरों (9.64%) का विनिवेश 24.03.2021 से 25.03.2021 तक किया गया था। रू 552.60 करोड़ की रिशास सरकार द्वारा वसूल की गई। इसके अलावा नियेश और सार्वजनिक परिसंपित प्रबंधन विभाग के पत्र दिनांक 31.03.2021 के तहत प्रत्येक रू 10/- के 100,46,696 इविवटी शेयर की, कुल प्रदत्त इविवटी पूंजी का लगभग 0.48%, कर्मचारियों के लिए पेशकश की जानी थी। कर्मचारी-ओएफएस के जिए 127,923 इविवटी शेयरों का विनिवेश 08.04.2021 को किया गया जिससे रू 0.35 करोड़ की राशि (कुल प्रदत्त इविवटी पूंजी का 0.006%) 13.103.2021 तक किया गया कुल विनिवेश 21.79 % है। (वित्तीय वर्ष 2019-20 12.16%) 08.04.2021 को कर्मचारी ओएफएस के उपरांत कुल विनिवेश 21.80% है।

11. लेखा परीक्षित लेखाजोखा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुकोद 143(६) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की संवीक्षा के विषयाधीन हैं। 12. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व और अन्य प्रकटन अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर तिमाही और वार्षिक एकल / समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत फार्मेट का सार है। उपरोक्त वित्तीय परिणामों के पूर्ण फार्मेट स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.rvnl.org पर उपलब्ध है।

कृते एवं हिते रेल विकास निगम लिमिटेड प्रदीप गौड

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 07243986

दिनांक : 29 जून, 2021

नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली

www.readwhere.com